



पत्रांक- 207

MKP115/0028

दिनांक- 22/01/2025

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता, रुहेलखण्ड वृत्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
सेक्टर-5, ऑफिस काम्पलेक्स,
मझोला योजना सं०-4, भाग-2,
मुरादाबाद

विषय:- परिषद की मझोला योजना सं० 4, भाग 2(विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-14 के ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अधीक्षण अभियन्ता, रुहेलखण्ड वृत्त, के पत्रांक 775/W-18/20 दिनांक 03.06.2024 के माध्यम से परिषद की मझोला योजना सं० 04, भाग 02(विस्तार), मुरादाबाद में स्थित सेक्टर-14 के नियोजन हेतु इस कार्यालय को किये गये अनुरोध एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, रुहेलखण्ड-03 के पत्रांक 1542 /YM-10/109 दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से प्रेषित फिजिबिल्टी के आधार पर ले-आउट प्लान तैयार कर निम्न शर्तों सहित अनुमोदन हेतु आवास आयुक्त(म०) के समक्ष प्रस्तुत किया गया:-

- 1.) सेक्टर 14 में एकल आवासीय भूखण्डों में तीन टाइप डिजाइन (90/162, 62/128 एवं 27/40) के भवनो का निर्माण पंजीकरण के आधार पर किया जाएगा। अन्यथा की दशा में शेष भवनो का पंजीकरण भूखण्ड के रूप में किया जा सकेगा, जिसके लिए मानचित्र में संशोधन कार्यालय आदेश संख्या 1261 /नि०प्रा०-10(ख) दिनांक 10.09.1993 के अनुसार मुख्य वास्तुविद नियोजक के स्तर से किया जा सकेगा।
- 2.) अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिये गये सुझाव पर योजना की सीमा पर 7.50 मी० चौड़ी सड़क के लेवल का मिलान सेक्टर 14 में प्रस्तावित सड़को के साथ समायोजित किया जायेगा, ताकि भविष्य में ड्रेनेज व सीवरेज के नियोजन एवं विकास में व्यवहारिक कठिनाईयाँ न हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त आवास आयुक्त(म०) द्वारा दिनांक 22.01.2025 को प्रश्नगत ले-आउट प्लान को निम्न शर्त सहित अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

- 3.) बिन्दु सं० 01 के अनुसार, "यदि पंजीकरण नहीं होता है तो भूखण्डों के रूप में ले-आउट प्लान परिवर्तित किया जायेगा।"

उपरोक्तानुसार स्वीकृत ले-आउट प्लान की एक प्रति आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अरविन्द देव)
वास्तुविद नियोजक
e/c vkr

प०सं०- 207

/ उक्त /

दिनांक- 22.01.2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार स्वीकृत ले-आउट प्लान की एक-एक प्रति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जोनल आयुक्त, बरेली जोन, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 122, सिविल लाइन्स, बरेली।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-रुहेलखण्ड 03, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मझोला योजना सं० 4, भाग 2, सेक्टर 5, ऑफिस काम्पलेक्स, प्रथम तल, मुरादाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-प्रथम, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, भूतनाथ मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-5, ऑफिस काम्पलेक्स, भूतल, मुरादाबाद।

वास्तुविद नियोजक
e/c vkr



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुविद नियोजक

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई- द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016



पत्रांक /224

/ एम0 के0 पी0-115 /

दिनांक 28.4.2025

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड रुहेलखण्ड-03,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-05, प्रथम तल,
मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद।

विषय:-मझोला योजना संख्या-4, भाग-2(विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-14 के स्वीकृत ले-आउट प्लान के वैधता की तिथि अंकित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 422/वाई0एम0-10/49 दिनांक 04.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मझोला योजना संख्या-4, भाग-2(विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-14 के स्वीकृत ले-आउट प्लान के वैधता की तिथि अंकित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में सेक्टर-14 के नम्बरिंग ले-आउट प्लान पर उसकी स्वीकृति दिनांक 17.03.2025 से 05 वर्ष दिनांक 16.03.2030 तक की वैधता को अंकित करते हुए प्रमाणित प्रतिलिपि आपको अधिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय


(अरविन्द देव)
वास्तुविद नियोजक

पत्रांक /224


/उक्त/

दिनांक 28.4.2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, रुहेलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-05, आफिस काम्पलेक्स, मझोला योजना संख्या-04, भाग-02, मुरादाबाद।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-05, आफिस काम्पलेक्स, मझोला योजना संख्या-04, भाग-02, मुरादाबाद।


वास्तुविद नियोजक




NOTE:-

- सेक्टर 14 में एकल आवासीय भूखण्डों में तीन टाइप डिजाइन (90/162, 62/128 एवं 27/40) के भवनों का निर्माण पंजीकरण के आधार पर किया जाएगा। अन्यथा की दशा में शेष भवनों का पंजीकरण भूखण्ड के रूप में किया जा सकेगा, जिसके लिए मानचित्र में संशोधन कार्यालय आदेश संख्या 1261/नि०प्रा०-10(ख) दिनांक 10.09.1993 के अनुसार मुख्य वास्तुविद नियोजक के स्तर से किया जा सकेगा।
- अधिकांश अभियन्ता द्वारा दिये गये सुझाव पर योजना की सीमा पर 7.50 मी० चौड़ी सड़क के लेवल का मिलान सेक्टर 14 में प्रस्तावित सड़कों के साथ समायोजित किया जायेगा, ताकि भविष्य में ड्रेनेज व सीवररेज के नियोजन एवं विकास में व्यवहारिक कठिनाईयें न हों। उपरोक्त के अतिरिक्त आवास आयुक्त(म०) द्वारा दिनांक 22.01.2025 को प्रश्नगत ले-आउट प्लान को निम्न शर्त सहित अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- बिन्दु सं० 01 के अनुसार, यदि पंजीकरण नहीं होता है तो भूखण्डों के रूप में ले-आउट प्लान परिवर्तित किया जायेगा।

निर्माण हेतु प्रमाणित
सं०प्रा०नि०
फार्म-2

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2018 के प्रस्तर 2.1.5 के अनुसार सेक्टर 14 के स्वीकृत नम्बरिंग ले-आउट प्लान की वैधता उसकी स्वीकृति दिनांक 17.03.2025 से 05 वर्ष दिनांक 16.03.2030 तक प्रमाणित की जाती है।

(मधुलिका श्रीवास्तव) सहायक वास्तुविद नियोजक	(अरविन्द देव) वास्तुविद नियोजक	(संजीव कश्यप) मुख्य वास्तुविद नियोजक



LANDUSE ANALYSIS

S.No.	Landuse	Area in Sqm.	%Age
1	Residential	16472.71	28.28 52.61
2	Group Housing	13117.90	23.32
3	Commercial	5120.10	9.10
4	Public/Semi-Public	6326.34	11.25
5	Green Area	5939.09	10.58
6	Circulation/Roads	9261.93	16.48
	TOTAL	56237.43	100%

UPAVP
ARCHITECTURE AND PLANNING SECTION
ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT-2
NEEL DRI COMPLEX, INDRA NAGAR,
LUCKNOW.
ISO. 15700-2015
EMAIL: up2@upavp.com

FILE NO. MKP115
DRG. NO. UPH06/AR2/MRD/M/10/4(1)EX/SEC14/NLDP/MKP115/1/DR-2025

NUMBERING LAYOUT PLAN OF SECTOR - 14, MAJHOLA YOJNA-4, PART-II (VISTAR), MORADABAD

SCALE :- 50M 25 M 0 50 M

NOTES:-

- ALL DIMENSIONS ARE IN METERS.
- FIGURED DIMENSIONS SHALL BE FOLLOWED.
- ANY DISCREPANCY, IF FOUND IN THE DRAWING SHALL BE BROUGHT TO THE NOTICE OF A.P. UNIT-2 BEFORE EXECUTION OF WORK.
- THIS LAYOUT OF SECTOR-14 HAS BEEN APPROVED BY H.C. ON 22.01.2025
- THIS LAYOUT PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF REQUIREMENT / FEASIBILITY RECEIVED FROM THE FOLLOWING LETTERS :-
a). EX. EN. C.D. RUHELKHAND- 03 VIDE HIS LETTER NO. 203/YM-10/17 DATED 10.02.2025.
b). EX. EN. C.D. RUHELKHAND- 03 VIDE HIS LETTER NO. 282/YM-10/35 DATED 07.03.2025.

LEGEND:-
SECTOR-14 BOUNDARY

NUMBERING AND PARAMETERS FOR PROPERTIES

S.No.	Type of Property	Plot No.	Area(sq.m.)	G.C.(%)	F.A.R.	FRONT	REAR	SIDE-1	SIDE-2
1	COMMERCIAL	14C.P.-1	228.0	50	1.75	6.0	3.0	3.0	3.0
2		14C.P.-2	238.0	50	1.75	6.0	3.0	3.0	3.0
3		14C.P.-3 TO 14C.P.-8 (06 NOS. PLOTS)	406.0	50	1.75	4.5	3.0	3.0	3.0
4		14C.P.-9	412.0	50	1.75	4.5	3.0	3.0	3.0
5	COMMERCIAL	14C.P.-10	376.10	50	1.75	4.5	3.0	3.0	3.0
6		14C.P.-11	400.0	50	1.75	4.5	3.0	3.0	3.0
7	POLICE BOOTH	14P.B.-1	530.0	50	2.00	6.0	3.0	3.0	3.0
8	SCHOOL PLOT	14SCH.-1	3070.06	25	1.25	2.0	3.0	3.0	3.0
9	RUNNING HOME	14R.H.-1	1939.20	30	1.50	3.0	3.0	3.0	3.0
10	GROUP HOUSING	14G.H.-1	13177.3	40	2.50	6.0	3.0	3.0	3.0
11	RESIDENTIAL PLOTS-200 B.S.P.	14/11 AND 14/119 (02 NOS. PLOTS)	361.00 AND 410.1						
12	DOUBLE STOREY HOUSES TYPE DESIGN 007/02	14/1 TO 14/11 AND 14/114 TO 14/118 (42 NOS. PLOTS)	162.0 (EACH)						
13	DOUBLE STOREY HOUSES TYPE DESIGN 007/03	14/12 TO 14/171 (54 NOS. PLOTS)	138.0 (EACH)						
14	SINGLE STOREY HOUSES TYPE DESIGN 07/04	14/72 TO 14/112 (41 NOS. PLOTS)	40.8 (EACH)						
15	GREEN AREAS	P-14/1 TO P-14/5	VARIES						

AS PER UPVIDH-2018

TOTAL SECTOR-14 AREA- 78649.39 SQ. M (19.438 ACRE)
Mayank Sahkari Awas Samiti Area- 22411.96 SQ. M
TOTAL PLANNING AREA- 78649.39 - 22411.96 = 56237.43 SQ. M

NOTE:-

- TOTAL NO. OF PROPERTIES ARE 154
- THESE PARAMETERS ARE APPLICABLE FOR HEIGHT UPTO 15.0M. ABOVE THAT HEIGHT SET BACKS SHALL BE KEPT AS PER UPVIDH-2018
- CAR PARKING AND OTHER FACILITIES INCLUDING SERVICES SHALL BE AS PER UPVIDH-2018

DATE 10.03.2025
DRAWN BY SATISH SINGH

MADHULIKA SRIVASTAVA
ASSTT. ARCHITECT PLANNER

ARVIND DEO
S.A. (ARCHITECTURE) (MORADABAD)
ARCHITECT PLANNER

SANJEEV KASHYAP
S.A. (ARCHITECTURE) (MORADABAD)
SENIOR ARCHITECT PLANNER

SANJEEV KASHYAP
S.A. (ARCHITECTURE) (MORADABAD)
CHIEF ARCHITECT PLANNER

DRG. NO.	FILE NO.
SHEET NO.	


NOTES :-
 1- ALL DIMENSIONS ARE IN M.M.
 2- WRITTEN DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED
 3- ANY DISCREPANCY IN THIS DRG. SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF CONCERNING ARCHITECT PLANNER/CHIEF ARCHITECT PLANNER.

SCHEDULE OF OPENING

S.NO.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	REMARK
1.	D	900	2000	
2.	D1	750	2000	
3.	W	2000	1850	CILL AT 150
4.	W1	1200	950	CILL AT 1050
5.	W2	900	1250	CILL AT 750
6.	W3	1500	1250	CILL AT 750
7.	W4	600	950	CILL AT 1050
8.	V	900	500	CILL AT 1500

AREA STATEMENT
 1. PLOT SIZE - (9.0x18.0) SQ.M.
 2. PLOT AREA - 162.00 SQ.M.
 3. COVD. AREA - 90.16 SQ.M.


MUKESH K. RUIHELA A.A.P	SANJEEV KASHYAP A.P	SARFARAZ AHMAD S.A.P	SUFODH SHANKAR C.A.P
DIGITIZED BY - SHRADHA NUALI DP ARCH.			DATE - 28.10.05
CHECKED BY - IRFAN			



ARCHITECTURE & PLANNING UNIT - 3

WORKING DRAWING OF HOUSE TYPE - 90/162 FOR VRINDAVAN YOJNA, LUCKNOW.

MUMTAZ HUSSAIN DP ARCH.	SD	27.02.2001
ASSTT. ARCH. PLANNER		
ASHUTOSH MITHAL B ARCH.	SD	27.02.2001
ARCHITECT PLANNER		
SUBODH SHAIKAR B ARCH. (PROV. LEET. P. I. I. A.)	SD	27.02.2001
CHIEF ARCH. PLANNER		
RAJENDRA B-ONWAL L.A.S.	SD	
AVAS AYUKT		



GROUND FLOOR PLAN



UPAVP

ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT-2
NEELGIRI COMPLEX, INDIRA NAGAR
LUCKNOW-226016
Email: ap2@upavp.com

SEVOTTAM

DRG. NO.

NOTES:-

1. THIS LAYOUT HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF INFORMATION RECEIVED FROM E.E. C.D. RUHELKHAND-04 VIDE HIS LETTER NO. NO-284/BD-2/19 DATED-28-02-2022
2. IF ANY DISCREPANCY IS FOUND IN DRAWING OR MISMATCH FROM SITE, IT SHOULD BE INFORMED TO ARCHITECT PLANNER, UPAVP ARCHITECTURE & PLANNING UNIT-2, NEELGIRI COMPLEX, INDIRA NAGAR, LUCKNOW. MAIL - ap2@upavp.com IMMEDIATELY.
3. ALL DIMENSIONS SHOWN IN THIS LAYOUT PLAN ARE IN MM.

DOOR WINDOW SCHEDULE

S.NO.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	REMARK
1.	D	1000	2100	SINGLE SHUTTER
2.	D1	1000	2100	DOUBLE SHUTTER
3.	D2	750	2100	SINGLE SHUTTER
4.	W1	1000	1800	CILL AT 300
5.	W	1500	1350	CILL AT 750
6.	WK	1500	1050	CILL AT 1050
7.	V	750	600	CILL AT 2100

PLOT AREA = 128.00 SqM
COVD. AREA = 62.0 SqM.
GROUND COVERAGE = 48.43%

ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT-2

WORKING PLAN OF HOUSE TYPE - 62/128
AT YOJNA NO-2, PART-2, BADAYUN.

DATE:- 21.07.2022

MAMATA VERMA
DIP ARCH.
ARCH. ASSTT.

S.D.:- 21.07.2022

MADHULIKA SRIVASTAV
A.I.A.
ASSTT. ARCHITECT PLANNER

S.D.:- 21.07.2022







MUKESH KUMAR RUHELA
B.A. & PLANNING (HONORARY)
ARCHITECT PLANNER

S.D.:- 21.07.2022

SANJEEV KASHYAP
B.A. & PLANNING (HONORARY)
SENIOR ARCHITECT PLANNER

S.D.:- 21.07.2022

SANJEEV KASHYAP
B.A. & PLANNING (HONORARY)
CHIEF ARCHITECT PLANNER





UPAVP
 ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT-2
 NEELGIRI COMPLEX,
 INDIRA NAGAR LUCKNOW
 Email: ap2@upavp.com

DRG SET NO.:-
 DRG NO.:-UPHDB/APDUN-2
 FILE NO.:-
 NOTES:-
 1. THIS TYPE DESIGN HAS BEEN PREPARED BY THE I OF INFORMATION RECEIVED FROM E.E. C.D. RUHELKHAND-04 VIDE HIS LETTER NO- 284/BD-2/1 DATED - 28.02.2022
 2. IF ANY DISCREPANCY IS FOUND IN DRAWING OR MISMATCH FROM SITE, IT SHOULD BE INFORMED ARCHITECT PLANNER, UPAVP ARCHITECTURE & PLANNING UNIT-2, NEELGIRI COMPLEX, INDIRA NAGAR, LUCKNOW MAIL- ap2@upavp.com IMMEDIATELY.
 3. ALL DIMENSIONS SHOWN IN THIS DRAWING PLAN IN MM.

DOOR WINDOW SCHEDULE

S.NO.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	REMARK
1.	D	1000	2100	SINGLE SHUTTER
2.	D1	900	2100	SINGLE SHUTTER
3.	D2	750	2100	SINGLE SHUTTER/CILL AT
4.	DW1	1270	2100	CILL AT 1050
5.	W	1500	2100	CILL AT 750
6.	W1	1000	2100	CILL AT 750
7.	V	900	600	CILL AT 1800

PLOT SIZE - 5.00 X 8.00 = 40.00 SQM.
 PLOT AREA = 40.00 SQM.
 COVD. AREA = 26.72 SQM.
 GROUND COVERAGE = 66.80 %

DOOR WINDOW SCHEDULE

PLOT SIZE - 5.00 X 8.00 = 40.00 SQM.
 PLOT AREA = 40.00 SQM.
 COVD. AREA = 26.72 SQM.
 GROUND COVERAGE = 66.80 %

ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT-2
 DRW. TITLE :-
WORKING PLAN OF HOUSE TYPE - 27/40
AT YOJNA NO. -2, PART -2, BADAUN .


DATE:- 21.07.2022
 MAMTA VERMA
 DRP ARCHT.
 ARCH. ASSTT.
 S.D.:- 21.07.2022

MADHULIKA SRIVASTAV
 A.I.A.
 ASSTT. ARCHITECT PLANNER
 S.D.:- 21.07.2022


MUKESH KUMAR RUHELA
 B.Arch. M. PLANNING (ENVIRONMENTAL PLANNING) I.I.T.P
 ARCHITECT PLANNER
 S.D.:- 21.07.2022

SANJEEV KASHYAP
 B. PLANNING M. PLANNING (ENVIRONMENTAL PLANNING) I.I.T.P
 SENIOR ARCHITECT PLANNER
 S.D.:- 21.07.2022


SANJEEV KASHYAP
 SENIOR ARCHITECT PLANNER
 S.D.:- 21.07.2022




SECTION AT A-A'




DOOR WINDOW SCHEDULE




ELEVATION



SITE PLAN



TERRACE FLOOR PLAN



GROUND FLOOR PLAN